

## विश्व मृदा दिवस पर हुआ मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण

चिन्वालीसौड़, उत्तरकाशी

दिनांक 05 दिसम्बर 2020 को विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान (भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद) के उत्तरकाशी जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र चिन्वालीसौड़ में विश्व मृदा दिवस का आयोजन आनलाइन तथा आफलाईन मोड में किया गया जिसमें जिले भर के किसानों को मृदा स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी प्रदान करने के साथ ही मृदा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण भी किया गया।



कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉ पंकज नौटियाल द्वारा किसानों को मृदा स्वास्थ्य एवं मिट्टी की जाँच के फायदे एवं उपयोग के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देकर की गयी। उन्होंने कहा कि मृदा में मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के संतुलन को बनाये रखने से ही हमारे खेतों की उत्पादकता बढ़ सकती है। साथ ही उन्होंने किसानों से नये किसान बिल को लेकर भी विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आनलाईन मोड से जुड़े जिला विकास प्रबंधक नाबाई, उत्तरकाशी पी सुनील मोहनकृष्णन ने किसानों से सीधा

संवाद कर कहा कि समस्त किसानों को मृदा परीक्षण करवाना चाहिये तथा कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से उन्नत फसलों की खेती करनी चाहिए साथ ही उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र चिन्यालीसौड द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की प्रशंसा की तथा किसानों कि ये सन्देश दिया कि उन्हें इस केंद्र के विशेषज्ञों के सहयोग द्वारा वैज्ञानिक विधि से खेती करनी चाहिए | केंद्र के कृषि प्रसार विशेषज्ञ डॉ गौरव पपनै ने मंच के सफल संचालन के साथ ही किसानों को मृदा स्वास्थ्य से जुडी विभिन्न जानकारियों से अवगत कराया | उन्होंने किसानों को समय समय पर मृदा परीक्षण करवाने एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाने के लिए कहा | केंद्र के ही श्री वरुण सुप्याल द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से किसानों को मृदा नमूने लेने के तरीके, मृदा परीक्षण करवाने तथा मृदा का पौधों के लिए महत्व आदि विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी | केन्द्र की रीतिका भास्कर द्वारा किसानों को पंचगव्य बनाने के तरीके एवं इसके महत्व पर जानकारी दी गयी | कार्यक्रम के अंत में निकरा परियोजना के तहत कृषकों को सब्जियों के उन्नतशील प्रजातियों के बीज भी वितरित किये गए इस दौरान कार्यक्रम में केन्द्र से डॉ गौरव पपनै, नीरज जोशी, रोहिणी खोब्रागडे, वरुण सुप्याल, ख्याली राम, रीतिका भास्कर, एम संस्था उत्तरकाशी के श्री के एन बहुगुणा, केन्द्र में ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बी एस सी कृषि के प्रशिक्षु विद्यार्थी तथा क्षेत्र के प्रगतिशील कृषकों समेत 70 से अधिक प्रगतिशील किसान मौजूद रहे |



Kvk Chinyalisaur is presenting

ayushi chauhan is also here

13:07

कृषि विज्ञान केन्द्र  
 (भाकूअनुप – विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान)  
 चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)  
 द्वारा आयोजित

**विश्व मृदा दिवस 2020**  
**Keep Soil Alive, Protect Soil Biodiversity**

5 DECEMBER 2020  
**World Soil Day**  
 Keep soil alive,  
 protect soil biodiversity

स्वच्छ भारत  
 एक कदम स्वच्छता की ओर

वित्तपोषित: भाकूअनुप- कृषि तकनीकी अनुप्रयोग संस्था (अटारी), लुधियाना

Participants: Kvk Chinyalisaur, Chandra shekhar Rana, Nandani deo, Negi Sumit, Shristi Negi, Dr Pankaj Nautiyal, DEEPAK JOSHI, Aditya Bisht

Type here to search

13:07  
 05-12-2020

